



ST.MONTFORT SCHOOL
SUMMER HOLIDAY ASSIGNMENT (2022-23)
CLASS-7

◆ ENGLISH

1. Write a paragraph about your favourite game with pictures (based on Unit 1).
2. Write a series of diary entries for five days on how you spent your Summer Vacations.

◆ HINDI

- ☺ 🌸 हिन्दी ग्रीष्मकालीन गृहकार्य
- 1- 🌸 "व्यायाम और स्वास्थ्य" इस विषय पर संकेत बिंदु के साथ निबंध लिखिए ।
 - 2- 🌸 पाठ 5 - शब्द भंडार से
 - 🌸 पर्यायवाची शब्द-1 से 5
 - 🌸 विलोम शब्द -1 से 5
 - 🌸 अनेकार्थी शब्द -1 से 5
 - 🌸 श्रुतिसमभिन्नार्थक -शब्द 1 से 5

यह समस्त कार्य सभी छात्रों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर लाना है ।

◆ SANSKRIT

- 🌸 संस्कृत ग्रीष्मकालीन गृहकार्य 🌸
- ☺ शब्दरूप " मति " इकारान्त स्त्रीलिंग शब्द रूप लिखिए ।
- धातु " चर् " के रूप लटलकार , लृटलकार और लोटलकार में लिखिए ।

नोट :- यह समस्त कार्य सभी छात्रों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर लाना है ।

◆ MATHS

Q-1 State the property of integers represented by the following statements

- 1) $(3+2)+4=3+(2+4)$
- 2) $210 \times 0 = 0$
- 3) $968 \times 1 = 968$

- 4) $81 \times (50 - 15) = 81 \times 50 - 81 \times 15$
- 5) $325 + 800 + 275 = 800 + 600$
- 6) $195 \times (10 - 6) = 195 \times 10 - 195 \times 6$

Q-2 multiply the following using suitable rearrangement

- 1) $(-60) \times (-4) \times 5 \times (-25)$
- 2) $125 \times 5 \times (-8) \times (-20)$
- 3) $30 \times 12 \times (-5) \times 40$
- 4) $82 \times 20 \times (-5)$

Q-3 verify the associative property of multiplication of integers for the following values

- 1) $x = -2, y = 3$ and $z = -4$
- 2) $x = -5, y = -12$ and $z = 8$

Q-4 The sum of two integers is -250. If one integer is 120, find the other.

Q-5 The product of two negative integers is 420. If one integer is -5 find the other.

Q-6 In a competitive examination (+ 4) marks are given for every correct answer (-2) marks are given for every incorrect answer and zero marks for not attempting the question,

- a) Ruchi scored 20 marks if she has got 12 correct answers, how many questions has she attempted in correctly?
- b) Rohit scored (- 6) marks in this test he has got 7 correct answers. How many questions has he attempted correctly?

Q-7 Add the following

- 1) $(-14) + (-31)$
- 2) $124 + (-136)$
- 3) $(-510) + 300$
- 4) $\{3 + (-7)\} + (-6)$

Q-8 Subtract the following

- 1) (-2) from 15
- 2) (-74) from (-21)
- 3) 101 from (-12)
- 4) (-38) from (-102)

Q-9 Multiply the following

- 1) $(-9) \times 7$
- 2) $0 \times (-55)$
- 3) $(-9) \times (-2) \times 4$
- 4) $(-10) \times 0 \times (-28)$

Q-10 Divide the following

- 1) $0 \div (-8)$
- 2) $18 \div (-6)$
- 3) $(-36) \div 4$
- 4) $95 \div (-19)$

◆ SCIENCE

👉 QUES: Collect one picture each of saprotroph, plants showing symbiosis, insectivorous plants. Paste pictures and label them in your science copy.

◆ SOCIAL SCIENCE

👉 (Geography)

Draw the following diagrams in your Geography note book:

1. Layers of the Earth (Fig.1.2,Pg.4)
2. Volcanic Cone (Fig.1.6 Pg.6)

Note: Neatly label and colour it.

◆ COMPUTER

Q: Explain the following:-

1. Artificial Intelligence (AI)
2. IOT
3. Smart homes
4. Digital Marketing

📁🖋️ You have to do it in A4 size sheets, properly attached in a file.

-----xxxx-----xxxx-----xxxx-----xxxx-----xxxx-----